

झलक पहले जैसी दिखानी पड़ेगी भजन लिरिक्स



झलक पहले जैसी दिखानी पड़ेगी,
लगी आग दिल की बुझानी पड़ेगी।bd।

तर्ज - तेरे प्यार का आसरा।

सलोनी अदा पे ये दिल हार बैठा,
तुम्हारे भरोसे पे सरकार बैठा,
अधिक देर करना गवारा ना होगा,
मधुर बैन फिर से सुनानी पड़ेगी,
लगी आग दिल की बुझानी पड़ेगी।bd।

दिला दुंगा अपनी कसम मैं मुरारी,
पड़ी कितनी महंगी सनम तेरी यारी,
ना छोड़ुंगा तुमको ये वादा मेरा है,
नजर से नजर फिर मिलानी पड़ेगी,
लगी आग दिल की बुझानी पड़ेगी।bd।

बिना ही वजह क्यों सजा दे रहे हो,
मोहब्बत का कैसा मज़ा दे रहे हो,
गुनहगार हूँ तेरा फिर भी मुरारी,
पुरानी लगन है निभानी पड़ेगी,
लगी आग दिल की बुझानी पड़ेगी।bd।

यही श्यामबहादुर भी कहते रहे हैं,
सीतम श्याम सुंदर का सहते रहे हैं,
सबल को नहीं कोई कहता है दोषी,
तरस सांवले 'शिव' पे खानी पड़ेगी,
लगी आग दिल की बुझानी पड़ेगी।bd।

झलक पहले जैसी दिखानी पड़ेगी,
लगी आग दिल की बुझानी पड़ेगी।bd।

